

## प्रेस नोट दिनांक 01.08.2021

### थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटर साईकिल बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 31.07.2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन रोड कस्बा नानौता की तरफ देवबन्द रोड से अभियुक्त आशु पुत्र सुरेश निवासी ग्राम हैदरपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर को चोरी की चार मोटर साईकिल सहित समय 18:50 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 223/21 धारा 411/414/465/420 भादवि पंजीकृत है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ आशु पुत्र सुरेश निवासी ग्राम हैदरपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण:-

- एक अदद स्प्लेंडर प्लस मो0सा0 नं0 UP 12 AP-0254 सही रजि0 नं0 UP11 BF 1754
- एक अदद स्प्लेंडर प्लस मो0सा0 नं0 UP 11 L-9550 सही रजि0 नं0 UP11 AV 4527
- एक अदद स्प्लेंडर प्लस मो0सा0 बिना नम्बर की
- एक अदद स्प्लेंडर मो0सा0 बिना नंबर की

#### पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बरामदा स्पेलण्डर प्लस मोटर साईकिल नं0 UP 12 AP-0254 को कुछ दिन पहले ग्राम ढाकादेई से चोरी की थी तथा पुलिस की पकड़ से बचने के लिये इसकी नम्बर प्लेट पर पुराना नम्बर मिटाकर गलत नम्बर डाल दिया था, जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 222/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है तथा अन्य तीन मोटर साईकिलों को अलग अलग जगह से चोरी करना स्वीकार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

- ❖ श्री सोबीर नागर थाना प्रभारी नानौता, सहारनपुर।
- ❖ उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।
- ❖ उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नानौता, सहारनपुर।
- ❖ हे0कां0 82 संजीव कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।
- ❖ हे0कां0 592 विजय कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।
- ❖ हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना नानौता सहारनपुर।

# प्रेस नोट दिनांक 31-07-2021

## थाना चिलकाना पुलिस एवं क्राईम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम गुमटी में नाथीराम की गोली मारकर की गई हत्या में वांछित 03 अभियुक्तगणों को किया

### गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 31.07.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में रोकथाम जुर्म व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना चिलकाना पुलिस एवं सर्विलान्स की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम तेलीपुरा में भारत पेट्रोल पम्प के सामने से ग्राम गुमटी में नाथीराम पुत्र मुकुन्दा निवासी ग्राम गुमटी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर की हत्या के अभियुक्तगण 1- अंकित पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम मकनपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 2- अर्जुन पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम अय्यापुर थाना खानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 3- सौरभ उर्फ पहाडी पुत्र जगबीर सिंह निवासी ग्राम कलसिया थाना खानपुर जिला हरिद्वार हाल पता किरायेदार भगत सिंह गुर्जर का मकान मौ0 शिवपुरी थाना लक्षर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया जो थाना हाजा के मु0अ0स0 234/21 धारा 302/120बी,34 भादवि में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण है, मृतक नाथीराम की हत्या की घटना का अनावरण पूर्व में ही मृतक के भांजे अभियुक्त सुशील को गिरफ्तार कर किया जा चुका है। अभियुक्तगण से की गई पूछताछ में अंकित ने पूछने पर बताया कि सुशील मेरा रिश्तेदार है मैंने अपने साथियों अर्जुन पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम अय्यापुर थाना खानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 2- सौरभ उर्फ पहाडी पुत्र जगबीर सिंह निवासी ग्राम कलसिया थाना खानपुर जिला हरिद्वार हाल पता किरायेदार भगत सिंह गुर्जर का मकान मौ0 शिवपुरी थाना लक्षर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड से मृतक नाथीराम को पैसों के लालच में रास्ते से हटा देने की योजना बनाई। सुशील के कहने पर सुशील के मामा नाथीराम की 52 बीघा जमीन के लालच में सुशील के द्वारा हत्या कराई गयी थी। जिसमें एक लाख 50 हजार रुपये नगद आ गये थे तथा शेष 02 लाख 50 हजार रुपये हत्या करने के बाद देना तय किया था। जिसमें से हम तीनों ने 50-50 हजार रुपये आपस में बांट लिए थे। नाथीराम रोज सुबह को शौच के लिए घर से साईकिल लेकर जंगल में अपने खेत पर जाते थे सुशील का रिश्तेदार होने के कारण अंकित पहले भी कई बार ग्राम गुमटी में नाथीराम के घर जा चुका था। नाथीराम को भी पहले से अंकित अच्छी तरह से जानता था। दिनांक 19.07.2021 को सुबह को नाथीराम की गोली मारकर हत्या करने के बाद अंकित का फोन सुशील कुमार के पास आया था जो काम हो जाने के 02 लाख 50 हजार रुपये की व्यवस्था कर लेने की बात सुशील से कह रहा था। अभियुक्तगण अंकित, अर्जुन व सौरभ उपरोक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया है जिसमें पैसों के लालच में आपराधिक षडयन्त्र के तहत सुशील के रिश्तेदार नाथीराम की हत्या की गयी है। अभियुक्तगणों उपरोक्त को मा0 न्याया0 के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है

### गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- अंकित पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम मकनपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- अर्जुन पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम अय्यापुर थाना खानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
- सौरभ उर्फ पहाडी पुत्र जगबीर सिंह निवासी ग्राम कलसिया थाना खानपुर जिला हरिद्वार हाल पता किरायेदार भगत सिंह गुर्जर का मकान मौ0 शिवपुरी थाना लक्षर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

### बरमादगी का विवरण:-

- 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कार0 मय 02 जिन्दा कार0 315 बोर

### आपराधिक इतिहास अभि0 गण

1. मु0अ0स0 234/21 धारा 302/120 बी भादवी0 थाना चिलकाना स0पुर

2. मु0अ0सं0 254/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना स0पुर

### घटना स्थल:-

भारत पेट्रोल पम्प के पास ग्राम तेलीपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

प्र०निरी० राजेश कुमार भारती थाना चिलकाना सहारनपुर  
व०उ० नि० श्री सतीश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर  
उ०नि० श्री दीपचन्द यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर  
उ०नि० अजय प्रसाद गौड अभिसूचना विंग सहारनपुर  
उ०नि० अजब सिंह सर्विलेंस सैल सहारनपुर  
का० 866 मोहीत कुमार अभिसूचना विंग सहारनपुर  
का० 1255 विनीत कुमार सर्विलेंस सैल सहारनपुर  
है०का० 447 अमरदीप क्राईम ब्रान्च स०पुर  
है०का० 08 नेत्रपाल क्राईम ब्रान्च स०पुर  
का० 405 गौरव राठी क्राईम ब्रान्च स०पुर  
का० 967 कमल कौशिक क्राईम ब्रान्च स०पुर  
का० 1991 विजय कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर  
का० 1719 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर  
का० 442 वसीम अहमद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर  
का० 837 नीटू कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

## प्रेस नोट दिनांक 01-08-2021

### थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-07-2021 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा बडकला हाईवे पुल के नीचे से अभि० 1-सीतम पुत्र रमेशचन्द्र निवासी झीवरहेडी व 2-अजय पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम लामग्रांट थाना भगवानपुर हरिद्वार, उत्तराखण्ड को 01-01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 336,337/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

### थाना सरसावा पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-07-2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा रेलवे रोड सरसावा से अभि० आमिर पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 365/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

### थाना नागल पुलिस द्वारा अवैध नशीली गोलियों सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-07-2021 को थाना नागल पुलिस द्वारा कोटा उमाही तिराहा से अभि० जावेद पुत्र आबिद निवासी ग्राम उमाही थाना नागल, सहारनपुर को 88 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नागल पर मु०अ०सं० 146/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

### थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-07-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नल्हेडा तिराहा के पास से अभि० अमजद उर्फ टीटू पुत्र यासीन निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना, सहारनपुर को 22 पक्के देशी शराब यूपी मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 251/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

### थाना को०देहात पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-07-2021 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा मढ जाने वाले रास्ते पर से अभि० मुस्तकीम पुत्र अब्दुल रहीम निवासी मुजफ्फराबाद बेहट रोड थाना फतेहपुर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 360/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया / सोशल मीडिया सेल  
जनपद सहारनपुर।